

KL/SEC/2023-24/45

Date: 1st August, 2023

To,
The Manager- Listing
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400 051

NSE Symbol: KAMDHENU

To,
The Manager- Listing
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001

BSE Scrip Code: 532741

Sub: Copies of Newspaper Advertisement.

Ref: Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the Regulation 30 and 47 of Listing Regulations, please find attached copies of extract of newspaper advertisements published on Tuesday, 1st August, 2023 in all editions of Financial Express (English) and Jansatta Delhi – NCR edition (Hindi) regarding Notice of 29th Annual General Meeting scheduled to be held on Wednesday, 23rd August, 2023 through Video Conference/Other Audio Visual Means.

We request you to kindly take the same on records.

Thanking you, Yours faithfully,

For Kamdhenu Limited

Khem Chand,

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above.

CIN: L27101HR1994PLC092205

Phone: 0124 4604500

IPL set to become most popular sporting event

ON ITS WAY UP

Buzz scores* of major sporting tournaments around the world

Buzz score (mn)



English Premier League



Indian Premier



National Basketball

Association

GEETIKA SRIVASTAVA New Delhi, July 31

THE INDIAN PREMIER League is set to become the most popular sporting event globally after dislodging the English Premier League as the 2023 edition of the cricket tournament logged a big jump in interest, interactions and video views, according to a report.

The latest edition of the earned equity report released by Wavemaker MESH Real Time Data Intelligence said the buzz score for the Season 16 of the cricket tournament this year touched 484 million, leading to a 44% increase over the previous season's 334 mil-

The report estimated the social media earned value of the Indian Premier League

(IPL) to be around ₹3,738 crore and the sponsors' earned media value around ₹871 crore. Tata, as the title partner, held the highest valuation, followed by Jio Cinema, Gulf and Star Sports.

The earned media valuation of teams stood at ₹2,867 crore with Chennai Super Kings with the highest earned media value, followed by Royal Challengers Bangalore and Mumbai Indians.

Going by the trends, the IPL ular sporting event worldwide,

will surpass the English Premier League (EPL) sooner than later, to become the most popthe earned equity report said.

"The IPL is far ahead of the EPL, especially if you look at the content costs in terms of the recent media rights auction. On a per match basis, IPL

T20 ICC World Cup *Inclusive of factors such as conversations, interest, interactions and video views

> 2023 edition by Wavemaker India matches were at a 30-40% premium as compared to the EPL,"said Karan Taurani, senior

vice-president of research ana-

lyst at Elara Capital.

Source: Earned Equity report - IPL

National

Football League

144

Major League

127

Baseball

The league has already surpassed popular global franchises such as the National Basketball Association (NBA) and the National Football League (NFL), which have buzz scores of 185 million and 144 million, respectively.

Meanwhile, the EPL has a buzz score of 516 million. Harish Bijoor, a brand and strategy expert, said, "Big valuations thrive where the most robust eveballs live. India is that destination and the IPL has emerged to be its near-daily dose of entertainment. The IPL will for sure overtake all sporting leagues around. This is not a surprise."

MI New York win cricket league in US; Nita Ambani says great to see growth of game

MINEW YORK has won the inaugural edition of Major League Cricket, the US T20 league, beating Seattle Orcas by 7 wickets.

Major League Cricket is a professional Twenty20 cricket league in the United States. Six team representing major US cities participated in the tournament that started on July 13. In the finals, Seattle Orcas scored 183 for loss of 9 wickets in their allotted 20 overs.

MI New York chased down a total of 184 in just 16 overs to win by six wickets with captain Nicholas Pooran leading from the front with an unbeaten hundred.

MI New York, which is owned by Indiawin Sports (a Reliance company), "put on a series of captivating performances to win the inaugural edition of MLC at the Grand Prairie Stadium in Texas", a

company statement said. Team owner Nita M Ambani, wife of Reliance chairman Mukesh Ambani, described the atmosphere for the final

as "unbelievable and really exciting". She also hailed the impact of the tournament."Just look at the atmosphere here. It looks like a festival of cricket. I think MLC is a momentous step in the development of cricket in this region. Sport can be a bedrock of society and especially in the US it's a big part of the

EXPLAINER

BACKSTOP FACILITY: A STITCH IN TIME

A backstop facility to ensure mutual funds (MFs) doesn't face shortage of liquidity during crises was launched last week. The Centre will guarantee up to ₹30,000 crore of debt raised by the fund—the Corporate Debt Market Development Fund (CDMDF). Sebi has designed a framework for the MF industry to contribute to the fund. Siddhant Mishra explains how the fund can help MFs in times of distress



Emergency fund

IN HER FY22 Budget speech, FM Nirmala Sitharaman had said, "To instill confidence among participants in the corporate bond market during times of stress and to enhance secondary market liquidity, it is proposed to create a permanent institutional framework." The proposed body will purchase investment-grade debt securities in stressed and normal times, and help develop the bond market.

The fund will serve to enhance liquidity in the secondary market as well as infuse confidence by purchasing illiquid corporate debt securities during times of distress. It will be a close-ended scheme in the form of an AIF, with an initial tenure of 15 years from the date of its initial closing—the date on which contribution from all AMCs and specified schemes is received.

₹3,000 cr

INITIAL CONTRIBUTION BYTHE AMCs TO THE CDMDF

OF AUM MUST BE PUMPED INTO UNITS BY SPECIFIC **DEBT-ORIENTED SCHEMES**

OFAUMAS ONE-TIME CONTRIBUTION BY SUCH DEBT-ORIENTED SCHEMES

Upto ₹30K cr

DEBT RAISED BY CDMDFTO BE GUARANTEED BY GOVT

What triggered the move?

THE FUND WAS announced in the aftermath of the Franklin Templeton fiasco. The fund house had to, in April 2020, shut six of its debt schemes citing high redemption pressure. The combined market value of these schemes was close to ₹26,000 crore. With many of Franklin's schemes having faced downgrades, the fund house found it difficult to sell offits bad securities. This is because a massive sell-off in bonds in March 2020 led to a liquidity crunch in the market while the onset of the pandemic made it worse. The fund house could not gather enough funds to pay off investors, leading to the wind-up.

"Past instances and especially the Franklin Templeton issue have pointed out that any liquidity or credit crunch in the market sends the industry into a state of panic. The purpose of this fund is to buy securities at the market price and provide liquidity to the distressed," D P Singh, deputy MD of SBI MF, had earlier said.

Composition of the fund

ASSET MANAGEMENT companies (AMCs) shall initially contribute ₹3,000 crore to the fund. According to the Sebi framework, specified debt-oriented MF schemes have to pump in 25 bps of their assets under management (AUM) in units of the facility. These exclude passive schemes, gilt funds and overnight funds but include conservative hvbrid schemes.

These schemes will make additional, incremental contribution in case of a rise in their AUM— every six months—to ensure 25 bps of the scheme is invested in units of the CDMDF. Further, AMCs are required to make a one-time contribution equivalent to 2 bps of the AUM of specified debt-oriented MF schemes managed by them.

Units of the facility shall be subscribed to by AMCs of MFs and "specified debtoriented MF schemes", according to the markets regulator. The SBI MF will manage the fund.

How the government will pitch in

THE GUARANTEE Scheme for Corporate Debt, notified by the Centre, will provide guarantee cover against debt raised by the CDMDF. It will be managed by a Trust formed by the economic affairs department, with a corpus of ₹310 crore. The Centre has approved a leverage at 10x the fund size, translating to a maximum

of ₹30,000 crore. This will be guaranteed by the National Credit Guarantee Trust Company, Sebi chairperson Madhabi Puri Buch said it will be a sovereign guarantee. In effect, the Centre will provide guarantee for loans not exceeding ₹30,000 crore. This will be in the form of a standing facility for 15 years.

When the backstop facility gets activated recovers.

THE BACKSTOP facility will be activated during times of market dislocation—but at the discretion of the markets regulator, Sebi. Following this, the CDMDF will purchase and hold eligible corporate debt securities from the participating investors. These debt securities can then be sold by CDMDF once the market

However, it must be noted that only those MFs that have contributed to CDMDF will be permitted to avail of the facility, that too in proportion to their contribution. This contribution, of course, will be calculated at the MF level and not at the level of individual schemes.

Google Ads launches auto-generated advertisement tool

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, July 31

ADVERTISERS AND BUSI-**NESSES** will now be able to auto-generate advertisements on Google Ads platform, said Dan Taylor, vice president of global ads at Google.

Using Large Language Models (LLMs) and generative artificial intelligence (Gen AI), Google Ads will be able to create cam-

paign workflows based on business prompts given by marketers."It learns from the advertisers landing pages, queries that are performing well and headlines that they've already approved to create entirely new creatives," he said during his recent India visit.

According to a McKinsey study, marketing and sales have the biggest reported revenue effects of AI.

Taylor spoke about Gen AI tools introduced during Google I/O held on May 10 this year for marketers and advertisers like Performance Max, and how brands like Myntra, Samsung, HDFC, and Tata AIG saw up to 18% higher conversions by adding AI to their marketing mix. Performance Max combines Google's AI technologies across bidding, budget optimisation, audiences, creatives,

attribution, and more, the company said.

The technology behemoth also reiterated its focus on privacyamid rising privacy regulations by countries. In a survey of 16,500 individuals from 11 Asia-Pacific markets, eight out of 10 consumers recognised the importance of online privacy and security of their personal information, he said.

"So much so that 70% of

those consumers would stop engaging with a brand in response to a violation of their trust around data. So this is a real consumer concern," Taylor said.

Days before the government introduced the Digital Personal Data Protection Bill in Parliament, Google announced enhanced privacy features like Privacy Sandbox, as it introduced generative capabilities for its ads business for marketers.



KAMDHENU LIMITED CIN:L27101HR1994PLC092205

Regd. Office: 2nd Floor, Tower A, Building No. 9, DLF Cyber City, Phase-III, Gurugram (Haryana)-122002 Ph.: 91-124-4604500 Email: cs@kamdhenulimited.com Website: www.kamdhenulimited.com

NOTICE OF THE 29th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) /OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) AND EVOTING INSTRUCTIONS

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of members of Kamdhenu Limited ("Company" will be held on Wednesday, 23rd August, 2023 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "Relevant Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. Members intending to attend the AGM through VC/OAVM may attend the AGM by following the procedure prescribed in AGM Notice. Members participating in the AGM through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The proceeding of AGM conducted shall be deemed to be made at the Registered Office of the Company

Further, in compliance with the Relevant Circulars, the Notice of the 29th AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 have been sent through electronic mode on 31st July, 2023 to those Members of the Company whose email addresses are registered in the records of the Company/ Registrar and Transfer Agent/ Company/ Depository Participant(s). The Annual Report for the financial year 2022-23 and the Notice of the 29th AGM, have been uploaded on the website of the company at www.kamdhenulimited.com, and is also available on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

the Notice of the 29th AGM.

Place : Gurugram

financialexp.epap.in

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standards - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015, as amended, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the 29th AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) on the dates mentioned herein below ("remote e-voting").

a) The remote e-voting facility will be available during the following voting period: Commencement of remote e-voting

9:00 A.M. (IST) on 20th August, 2023 End of remote e-voting 5:00 P.M. (IST) on 22nd August, 2023 The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period.

b) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("Insta Poll") and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM

 The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide e-voting facility d) Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC / OAVM. e) The Cut-off date for determining eligibility of the members for remote e-voting as well as for voting at the AGM

Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM. The manner of remote e-voting and voting at the AGM through Instapoll by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address is provided in

through Insta Poll is Wednesday, 16th August, 2023 ("Cut-off date"). Any person who becomes a member of the

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM. In case any query or grievance pertaining to remote e-voting before the AGM, e-voting during the AGM and joining the AGM through VC/OAVM, Members may refer the FAQs for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders

available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Members may contact Mr. Amit Vishal, Asst. Vice President, NSDL, Trade World, Awing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013, Tel.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30, Further, Members may also contact with Mr. Sharwan Mangla, General Manager, MAS Services Limited, a SEBI Registered RTA at sm@masserv.com; info@masserv.com or on Telephone No.: 011-26387281/82/83. Mr. Shashikant Tiwari, Partner, (F11919) failing him, Mr. Rupesh Agarwal, Managing Partner, (A16302) of M/s. Chandrasekaran Associates, Practicing Company Secretaries, have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the

scrutinizer's report will be uploaded on the company's website www.kamdhenulimited.com and will be communicated to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where securities of the company are listed. Notice is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI LODR Regulations, the Record Date for the purpose of Dividend for the financial year 2022-23 and 29th AGM is Wednesday, 16th August, 2023. The members appearing in the Register

process for remote e-Voting and e-Voting at the AGM in a fair and transparent manner. The results of e-voting along with

of Members as on the Record Date shall be entitled for the Dividend for the financial year 2022-23. For Kamdhenu Limited Date: 31.07.2023

Khem Chand Company Secretary & Compliance Officer



Quarter ended Quarter ended Year ended Year ended **Particulars** 30.06.2023 30.06.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.06.2022 31.03.2023 (Un-audited) (Un-audited) (Audited) (Un-audited) (Un-audited) (Audited) 1 Total Income from Operations 11,082.20 11,016.88 45,968.07 11,257.60 11,168.54 46,605,64 2 Net Profit before Tax (including Regulatory Deferral Account Balances (net of tax)) 4,111.12 4,268.15 17,471.12 4,218.30 4,331.26 17,701.62 3 Net Profit after Tax for the period 3,542.65 15.335.54 3,597.16 3,765.93 3,801.29 15,419.74 Total Comprehensive Income comprising Net Profit after Tax and Other Comprehensive Income 3,475.31 3,701.21 15,228.84 3,529.50 3,736.64 15,315.24 Paid up Equity Share Capital (Face value of share : ₹ 10/- each) 6,975.45 6,975.45 6,975.45 6,975.45 6.975.45 6,975.45 6 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance sheet 79,344.04 72,886.03 79,581.07 75,868.73 73,017.48 76,050.84 7,834.43 7,834.43 7,834,43 7,834.43 7,834.43 Securities Premium Account 7,834.43 8 Net worth 86,319,49 79,861.48 82,844,18 86,556.52 79.992.93 83,026.29 9 Total Borrowings 1,22,694.71 1,33,023.80 1,26,594.90 1,22,694.71 1,33,023.80 1,26,594.90 10 Debt Equity Ratio 1.42 1.67 1.53 1.42 1.66 1.52 11 Earnings per equity share including movement in Regulatory Deferral Account Balances 5.08 5.16 5.40 21.99 5.45 22.11 (Face value of ₹ 10/- each): Basic and Diluted (in ₹) 12 Earnings per equity share excluding movement in Regulatory Deferral Account Balances 5.57 5.28 21.62 5.65 5.34 21.75 (Face value of ₹ 10/- each): Basic and Diluted (in ₹) 13 Bonds Redemption Reserve 3,834.73 5,185.30 4,168.17 3,834.73 5,185.30 4,168.17 14 | Debt Service Coverage Ratio 1.73 1.52 1.77 1.96 1.99 1.54 15 Interest Service Coverage Ratio 4.15 4.69 3.93 4.33 4.80 4.02

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Consolidated and Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Consolidated and Standalone Financial Results is available on the Investors section of our website https://www.powergrid.in and under Corporates Section of BSE Limited & National Stock Exchange of India Limited at https://www.bseindia.com and https://www.nseindia.com respectively.

Previous periods figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.

Place: Gurugram

Date: 31 July, 2023

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED (A Government of India Enterprise)

G Ravisankar

Director (Finance)

Registered Office: B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016 Corporate Office: "Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurugram-122001(Haryana). CIN: L40101DL1989GOI038121



For and on behalf of POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD

A MAHARATNA PSU

बजाज फाइनैंस लिमिटेड

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, आरओसी भवन, रूरल पार्क सोसायटी के सामने, अंकुर बस स्टॉप के पीछे, नरणपुरा,

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

मिर्जापुर पावर प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय ऑफिस डी-43, जनपथ, श्याम

नगर, जयपुर-302019 में है, के मामले में एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राजस्थान राज्य'' से '' महाराष्ट्र राज्य'' में उसके पंजीकत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 5 मई. 2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह

आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होत हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथव उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपित्त के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, आरओसी भवन, रूरल पार्क सोसायटी के सामने, अंकुर बस स्टॉप के पीछे, नरणपुरा, अहमदाबाद-380013 करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

> कृते एवं के लिये मिर्जापुर प्राईवेट लिमिटेड गौरव श्रीवास्तव निदेशक DIN: 09126831

प्रारूप ए

सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)

नामः सौरभ अग्रवाल

पता : 403. निर्मल टॉवर, 26 बाराखंभा रोड.

ईमेल आईडी : saurabhfcs@gmail.com

टैलीफोन नं.: +919811365004.011-40366403

कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001

केरेन पॉलीप्लास्ट इंडिया लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

केरेन पॉलीप्लास्ट इंडिया लिमिटेड कॉपॉरेट व्यक्ति का नाम कॉर्म्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि 21 जून, 2011 प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट रजिस्टारऑफ कम्पनीज—दिल्ली

व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता | U25200DL2011PLC221201 पहचान कॉर्पोरेट लोगों की संख्या

कॉर्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत आरआर-12, ग्राउंड फ्लोर, मियांवाली नगर, कार्यालय और प्रधान कार्यालय पीरागढी चौक के पास, दिल्ली-110087 (यदि कोई हो तो) का पता

कॉर्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ 29 जुलाई 2023 होने की तिथि परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता,

दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या

तिथि: 01.08.2023

स्थानः जयपुर

पंजी. सः IBBI/IPA-003/IP-N00223/2019-20/12640 8. दावे जमा करने की अन्तिम तिथि 29 अगस्त 2023 एतद्वारा सुबना दी जाती है कि केरेन पॉलीप्लास्ट इंडिया लिमिटेड ने 29 जुलाई 2023 को खैबिछक

केरेन पॉलीप्लास्ट इंडिया लिमिटेड के हितधारकों को एतद्वारा मद 7 के सम्मुख बल्लिखित पते पर परिसमापक के पास 29 अगस्त 2023 को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है। वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे। अन्य सभी पक्षकार अपने दावें के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से. डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं। दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

सौरम अग्रवाल तिथि : 30 जुलाई 2023 | स्थान : नई दिल्ली परिसमापक, केरेन पॉलीप्लास्ट इंडिया लिमिटेड पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00344/2017-18/10994 | एएफए वैधता : 06 दिसंबर 2023 तक

ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड DK JAIN

सीआईएन : L31909DL1981PLC349793 पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरबंश भवन—II, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली-110046 दूरभाष : 011-49857832

वेबसाइटः www.lumaxworld.in/lumaxautotech, ईमेलः shares@lumaxmail.com

ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की 42वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस और ई-वोटिंग सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों की अनुपालना में **ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज** लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 42वीं (बयालिसवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नोटिस में यथा निर्धारित बिज़नेस के संचालन के लिए, संयुक्त स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर, वीडियो कान्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों ("ओएवीएम") के जरिए, मंगलवार, 22 अगस्त, 2023 को

अपराहन 12.30 बजे (भारतीय मानक समय) आयोजित की जाएगी। कंपनी ने 42वीं एजीएम का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सोमवार, 31 जुलाई, 2023 को उन सदस्यों को प्रेषित किया है जिनके ई–मेल पते डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("**डीपी"**)/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") अर्थात बिगशेयर सर्विसिज प्राइवेट

लिमिटेड / कंपनी के पास पंजीकृत हैं। सदस्य नोट कर लें कि उपरोक्त नोटिस और वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट अर्थात https://www.lumaxworld.in/lumaxautotech, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com. पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, समय–समय पर यथा संशोधित, के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 108 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी आम बैठक पर सचिवालय मानदंडों (एसएस-2) के अनुसरण में, कंपनी एजीएम बुलाए जाने के नोटिस में निर्धारित सभी संकल्पों पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली ("**रिमोट ई—वोटिंग**") का प्रयोग करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी सदस्यों को सुविधा प्रदान कर रही है। इस संबंध में विस्तृत प्रकिया / अनुदेश एजीएम के नोटिस की टिप्पणियों में उपलब्ध कराए

कंपनी के सदस्य, जो कि कट ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 16 अगस्त, 2023 को भौतिक स्वरूप में अथवा डीमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर धारण कर रहे हैं. अपने वोट डलेक्टॉनिकली डाल सकते हैं। ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 19 अगस्त, 2023 (प्रातः 09.00 बजे आईएसटी) को आरंभ होगी और सोमवार, 21 अगस्त, 2023 (05.00 बजे सायं, आईएसटी) समाप्त हो जाएगी। मतदान हेत् ई-वोटिंग मॉडयूल एनएसडीएल द्वारा सोमवार, 21 अगस्त, 2023 को सायं 05.00 बजे (आईएसटी) हटा लिया जाएगा। जो व्यक्ति कट ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, तदनुसार उन्हें एजीएम नोटिस केवल सूचनात्मक उददेश्य के लिए मान लेना चाहिए। सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान कर दिए जाने पर उसे बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान के अधिकार कट ऑफ तिथि को कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित शेयरों के समानुपात में होंगे। सदस्य जो पहले ही एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मतदान का प्रयोग कर चुके हैं वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु पुनः अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। एजीएम में उपस्थित हो रहे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है वे एजीएम के

दौरान अपना वोट दे सकेंगे। कोई व्यक्ति, जो कि नोटिस के प्रेषित किए जाने के बाद कंपनी के शेयर अर्जित कर लेता है और सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 16 अगस्त, 2023 को शेयर धारण कर लेता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपनी वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

कंपनी ने श्री मनीष गुप्ता, कंपनी सचिव (एफसीएस सदस्यता संख्या: 4982) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए निगरानीकर्ता के तौर पर नियुक्त किया है।

सदस्य, जो कि एजीएम के दौरान अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे अथवा प्रश्न करना चाहेंगे. वे एजीएम की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले अर्थात मंगलवार, 15 अगस्त, 2023, सायं 5.00 बजे (आईएसटी) तक अपने नाम, डीपी आईडी और क्लायंट आईडी / फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ई-मेल पते से shares@lumaxmail.com पर अनुरोध भेज कर वक्ता के तौर पर स्वयं को रजिस्टर करा सकते हैं। केवल उन्हीं सदस्यों को, जिन्होंने स्वयं को वक्ता के तौर पर रजिस्टर कराया है, एजीएम के दौरान अपने विचार / प्रश्न रखने की अनुमति दी जाएगी। कंपनी के पास एजीएम में प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सरक्षित है।

सदस्य, जिन्हें एजीएम से पहले अथवा दौरान टेक्नोलॉजी के प्रयोग से जुड़ी किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है अथवा ई—वोटिंग को लेकर कोई प्रश्न अथवा मुद्दा या शिकायत है तो वे कृपया www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हेल्प / एफएक्यू खण्ड का संदर्भ लें अथवा टेलीफोन नंबर 022-4886 7000 और 022—2499 7000 पर कॉल कर लें अथवा <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर अनुरोध भेज दें। वैकल्पिक तौर पर सदस्य कंपनी के कंपनी सचिव को भी ई-मेल आईडी

shares@lumaxmail.com पर लिख कर सकते हैं। कृते ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पंकज महेन्द्र स्थान : गुरूग्राम तिथि : 31 जुलाई, 2023 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra भारत सरकार का खद्यम

एक परिवार एक बैंक

जॉय टॉवर, सी 20, दूसरी मंजिल, 1/1ए, सी ब्लॉक, फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर 62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201301

आंचलिक कार्यालय प्रधान कार्यालयः लोकमंगल,1501,शिवाजीनगर, पुणे—5

सीएल जैन कॉलेज के सामने, फिरोजाबाद-283203 आधिपत्य सूचना (स्थावर संपत्ति) नियम–8(1) जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभृति–हित–का प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत एवं घारा 13(12) सहपवित प्रतिभृहित हित (प्रवर्तन

नियम 2002 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्न वर्णित दिनांक को मांग सुचना पत्र को जार्र किया जिसमें निनवर्णित ऋणी एवं जमानतदार को नोटिस में निम्न वर्णित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अनय खर्ची सहित नोटिस प्राप्ति की दिनोंक से 60 दिनों की समयावधि में भगतान करने हेत निर्देशित किया गया था। यह सचना पत्र रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था। ऋणी द्वारा राशि के भगतान नहीं करने पर ऋणी एवं आमजनता को एतद द्वारा सचित किया जाता है कि उपरोक्त कथित एक्ट की घारा 13 (4) सहपठित उक्त कथिर नेयम के नियम 8 के अधीन निम्न इस्ताझरकर्ता ने निम्नवर्णित संपत्तियों का **सांकेतिक कब्जा** निम्नवर्णित दिनांक को ले लिया गया है। ऋणी एवं जमानतदार के वेशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद द्वारा निम्नवर्णित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई भी व्यवहार निम्न वर्णित राशि के लिए **बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फ़िरोज़ाबाद शाखा** के निर्मित प्रभार के अध्यक्षीन होगां। उधारकर्ताओं को एक्ट की धारा 13 एवं एवं उपधारा 8 के प्रावधान के अन्तर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों एवज में उपलब्ध समय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

बकाया उधारकर्ता एवं जमानतदार बंधक रखी की तिथि राशि संपत्ति के विवरण का नाम एवं पता मेसर्स मां चंद्रावती कंस्ट्रक्शन, संपत्ति का साम्यिक बंधक स्थित गाटा संख्या 106, मौजा लालाऊ, 16.07.2022 प्रो. श्रीमती चंद्रावती देवी पत्नी श्री तहसील और जिला फिरोजाबाद, क्षेत्रफल 568.75 वर्ग मी., श्रीमती 33,680,000 राम प्रकाश राठौड़, पताः न्यू प्रीतम चंद्रावती देवी पत्नी श्री राम प्रकाश के नाम सीमाये:- उत्तर- बम्बा पटरी 26.07.2023 + व्याज एवं अन्य खर्च पूर्व- दलवीर का खेत, पश्चिम- शेष भूमि गाट नं. 106, दक्षिण - छोटे नगर, कर्बला, फिरोजाबाद। श्री राज कुमार राठौड पुत्र श्री लाल का खेत। 16.07.2022 राम प्रकाश राठौड़ (गारंटर) पता: कॉमर्शियल प्लॉट का साम्यिक बंधक स्थित गाटा सं. 116/2, मौजा मीतम नगर, कर्बला, सुखमलपुर, निजामाबाद, मीहल्ला सत्य नगर, बाई पास रोड फिरोजाबाद. फिरोजाबाद क्षेत्रफल 208.32 वर्ग मी., श्रीमती चंद्रावती देवी पत्नी श्री राम प्रकाश के 3.श्री राम प्रकाश राठौड पुत्र श्री नाम, सीमायें:--उत्तर - श्रीमती मीना देवी का प्लॉट, पूर्व - नेता जी का मनी राम (गारंटर) पताः न्य प्रीतम प्लॉट, पश्चिम – बॉबी और अन्य का प्लॉट, दक्षिण – 12 चौडा रास्ता। कॉमर्शियल प्लॉट का साम्यिक बंधक स्थित गाटा सं. 116/2. मौजा नगर, कर्बला, फिरोजाबाद। श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री राज सुखमलपुर, निजामाबाद, मौहल्ला सत्य नगर, बाई पास रोड फिरोजाबाद. कुमार राठौड़ (गारंटर) पता: न्यू क्षेत्रफल 89.28 वर्ग मी., श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री राज कुमार राठौड़ के प्रीतम नगर, कर्बला, फिरोजाबाद। नाम, सीमायें:-उत्तर- बंबा बायपास रोड, पूर्व - नेता जी का प्लॉट,

पश्चिम – बॉबी और अन्य का प्लॉट, दक्षिण – श्रीमती चंद्रावती का प्लॉट

प्राधिकृत अधिकारी स्थान– फिरोजाबाद दिनांक- 31.07.2023

KAMDHENU PAINTS

दिनांक : 31.07.2023

Sr. No

(a) Basic

(b) Diluted

स्थान : गुरुग्राम

कामधेन वेचसे लिमिटेड सीआईएन : L51909HR2019PLC089207 पंजीकृत कार्यालय : दूसरी मंजिल, टॉवर ए, बिल्डिंग नं. १, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-III, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 दूरभाष : 0124-4604500 ई-मेल : cs@kamdhenupaints.com वेबसाइट : www.kamdhenupaints.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से होने वाली चौथी वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग निर्देश

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की चौथी वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों (सामृहिक रूप से ''प्रासंगिक परिपत्र'') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के लेन-देन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से बुधवार, 23 अगस्त, 2023 को शाम 4:00 बजे अप. (भा.मा.स.) आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के इच्छुक सदस्य एजीएम की सूचना में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से माना जाएगा। एजीएम की कार्यवाही का संचालन स्थान कम्पनी की पंजीकृत कार्यालय माना जायेगा।

आगे, प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, चौथी एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्टॉनिक माध्यम से 31 जुलाई 2023 को कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं जिनके ईमेल पते ट्रांसफर एजेंट/कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट तथा चौथी एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.kamdhenupaints.com तथा स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतू निर्देश :

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

द्वारा आम बैठकों पर सचिवीय मानक-2 तथा सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44, यथासंशोधित के

अनुसार कम्पनी अपने सदस्यों को चौथी एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावों पर अपने मताधिकार की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक साधनों (''ई–वोटिंग'') द्वारा उपलब्ध करा रही है। सदस्य नीचे वर्णित तिथियों पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (''रिमोट ई–वोटिंग'') द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं :

(क) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्निलिखित मतदान अविध के दौरान उपलब्ध होगीः रिमोट ई-वोटिंग की शुरूआत : 20 अगस्त, 2023 को प्रातः 9:00 बजे (भा.मा.स.) रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति : 22 अगस्त, 2023 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.)

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा

(ख) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम ('इंस्टा पोल') पर भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे इंस्टा पोल के माध्यम से ईजीएम में मतदान कर सकेंगे। (ग) कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं

(घ) ई-वोटिंग से संबंधित यूजर आईडी और पासवर्ड के विवरण सहित सूचना और निर्देश सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज दिए गए हैं वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करें।

(ङ) रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ इंस्टा पोल के माध्यम से एजीएम में मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि बुधवार, 16 अगस्त, 2023 (''कट-ऑफ तिथि'') है। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख को शेयर धारण करता है, वह एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त

(च) डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा और अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं करने वाले सदस्यों के लिए इंस्टा पोल के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग का तरीका चौथी एजीएम की सुचना में प्रदान किया गया है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में दोबारा अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध FAQs for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800-222-990 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें। सदस्य श्री अमित विशाल, सहायक उपाध्यक्ष, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था तल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई-400013, दूरभाषः 18001020 990 और 1800 22 44 30 से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, सदस्य श्री श्रवण मंगला, महाप्रबंधक, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, एक सेबी पंजीकृत आरटीए से sm@masserv.com: info@masserv.com या टेलीफोन नंबरः 011-26387281/82/83 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के श्री शशिकांत तिवारी, पार्टनर, (एफ11919) और उनकी अनुपस्थिति में श्री रूपेश अग्रवाल, मैनेजिंग पार्टनर, (ए16302) को एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया की जांच करने के लिए को स्क्रुटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.kamdhenupaints.com पर अपलोड किए जाएंगे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को सूचित किया जाएगा, जहां कंपनी की प्रतिभृतियां सूचीबद्ध हैं।

कृते कामधेन वेंचर्स लिमिटेड ह.∕

नितिन मिश्रा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सं. 1152, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, प्लॉट नंबर ई 5, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034

फिरोजाबाद शाखा

31 मोनापुरम,

बजाज फाइनैंस लिमिटेड कार्पोरेट कार्यालय : तृतीय तल, पंचशील टेक पार्क, विमान नगर, पूर्ण – 411014, महाराष्ट्र शाखा कार्यालय : 11वां तल, कार्यालय

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित

अधिनियम, 2002 की 13 (2) और उनके नियमों के तहत सूचनाएं, उनके अंतिम ज्ञात पते पर, जारी की गई थीं। तथापि वे बिना स्पूर्दगी/बिना तामील

वापस प्राप्त हो चुकी हैं, अतः कर्जदार(रों) / सह–कर्जदार(रों) को इस प्रकाशन के माध्यम से सुचित किया जाता है कि वे उनके द्वारा समय समय पर

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना अधोहस्ताक्षरी मैसर्स बजाज फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतदद्वारा निम्नलिखित सूचना उन कर्जदार(रों) / सह–कर्जदार(रों) को जारी कर रहा है, जो अपनी देयता का निर्वहन करने में असफल रहे हैं अर्थात बजाज फाइनैंस लिमिटेड द्वारा उनको सम्पत्ति के संबंध में दिए गए गृह ऋण (ऋणों) / ऋण (ऋणों) के मुलधन और उसपर उदभुत ब्याज एवं अन्य प्रभारों के प्रतिभुगतान में असफल रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप ऋण निम्नवर्णित तिथियों को अनार्जक आस्ति (एनपीए) हो गया है / हो गए हैं। तदनुसार उनको वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन

	Š	
ऋण खाता संख्या/कर्जदार(रों)/	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूत / बंधक	माग सूचना तिथि
सह–कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम एवं पता	अचल आस्ति / सम्पत्ति का पता	और राशि
शाखा : दिल्ली (एलएएन : 401FSP25097782 तथा 401FSP25100078) 1. विपुल मित्तल (कर्जदार) 2. किपल मित्तल (सह-कर्जदार) 3. विपुल मित्तल (एचयूएफ) (सह-कर्जदार) 4. नरेश मित्तल (एचयूएफ) (सह-कर्जदार) 1 से 4 का पता : 97, चंदर लोक एन्क्लेव, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, नई दिल्ली—110084 5. हाईटेक ग्रेन प्रोसेसिंग प्रा. लिमिटेड (सह-कर्जदार)	निम्नवर्णित गैर—कृषि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति म्युनिसिपल नंबर 97 (परिमाप 302 वर्ग गज), स्थित लेआउट प्लान चंदर लोक तथा माडल ए.आर.पी. कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी वर्तमान में चंदर लोक के नाम से ज्ञात, राजस्व सम्पदा शकूरपुर एवं पीतमपुरा, दिल्ली (श्रीमती रेखा मित्तल और श्रीमती सजेता मित्तल सम्पत्ति की संयुक्त स्वामिनी हैं तथा सम्पत्ति का वैध स्वत्वाधिकार है), उत्तर : सम्पत्ति सं. 98, पूरब : 45 चौड़ी रोड, दक्षिण : सम्पत्ति सं. 96, पश्चिम : सर्विस लेन	रू. 9,40,55,560 / – (रूपए नौ करोड़ चालीस लाख पचपन हजार पांच सौ साठ मात्र)

पता : जी-36, लारेंस रोड आईएचडी एरिया, नई दिल्ली-110035

प्राप्त की गई ऋण स्विधाओं के तहत बकाया रशियों का भूगतान करें।

6. सजेता मित्तल (सह-कर्जदार) 7. रेखा मित्तल (सह-कर्जदार) 8. आशा मित्तल (सह-कर्जदार) 9. नरेश मित्तल (सह-कर्जदार)

6 से 9 का पता : 97, चंदर लोक एन्क्लेव, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, नई दिल्ली—110084

सूचना की वैकल्पिक तामील हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदारों तथा/अथवा सह–कर्जदारों/गारंटरों को सलाह दी जाती राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर कर दें, जिसमें असफल रहने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठ एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभृति आस्ति / बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतू आगे कार्यवाह (बजाज फाइनैंस लिमिटेड के पास उपलब्ध अन्य अधिकार उपायों को प्रतिकृत प्रभावित किए बगैर) की जाएगी। उपरोक्त नामक पार्टियों को उपरिवर्णित सम्पत्तियों को हस्तांतरित नहीं करने, ततीय पक्ष हित सजित नहीं करने की भी सलाह दी जाती है। जिन प

बजाज फाइनैंस लिमिटेड का प्रभार है। प्राधिकृत अधिकारी तिथि : 01-08-2023

KAMDHENU

STEEL

स्थान :- दिल्ली / एनसीआर

पंजीकृत कार्यालय : दूसरी मंजिल, टॉवर ए, बिल्डिंग नं. 9, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-III, गुरुग्राम (हरियाणा)-122002

दूरभाष : 91-124-4604500 ई-मेल : cs@kamdhenulimited.com

वेबसाइट : www.kamdhenulimited.com

वीडियो कॉन्फ्रोंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से होने वाली 29वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग निर्देश

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कामधेन लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों (सामृहिक रूप से ''प्रासंगिक परिपत्र'') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम' और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के लेन-देन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से बुधवार, 23 अगस्त, 2023 को प्रातः 11:30 बजे (भा.मा.स.) आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के इच्छुक सदस्य एजीएम की सूचना में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से माना जाएगा। एजीएम की कार्यवाही का संचालन स्थान कम्पनी की पंजीकृत कार्यालय माना जायेगा

आगे, प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, 29वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्टॉनिक माध्यम से 31 जुलाई, 2023 को कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं जिनके ईमेल पते ट्रांसफर एजेंट/कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट तथा 29वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://www.kamdhenulimited.com तथा स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं । रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेत निर्देश :

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा आम बैठकों पर सचिवीय मानक-2 तथा सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44, यथासंशोधित के अनुसार कम्पनी अपने सदस्यों को 29वीं एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावों पर अपने मताधिकार की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक साधनों (''ई-वोटिंग'') द्वारा उपलब्ध करा रही है। सदस्य नीचे वर्णित तिथियों पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (''रिमोट ई-वोटिंग'') द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं :

(क) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगीः

रिमोट ई-वोटिंग की शुरूआत रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति

22 अगस्त, 2023 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा। (ख) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम ('इंस्टा पोल') पर भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले

सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे इंस्टा पोल के माध्यम से ईजीएम में मतदान कर सकेंगे। (ग) कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं।

(घ) ई-वोटिंग से संबंधित यूजर आईडी और पासवर्ड के विवरण सहित सूचना और निर्देश सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करें। (ङ) रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ इंस्टा पोल के माध्यम से एजीएम में मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि बुधवार,

16 अगस्त, 2023 (''कट–ऑफ तिथि'') है। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तारीख को शेयर धारण करता है, वह एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। (च) डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा और अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं करने वाले सदस्यों के लिए इंस्टा पोल

के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग का तरीका 29वीं एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में दोबारा अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने से संबंधित किसी भी प्रश्न य शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध FAQs for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800-222-990 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें। सदस्य श्री अमित विशाल, सहायक उपाध्यक्ष, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था तल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई-४०००१३, दूरभाषः १८००१०२० 990 और 1800 22 44 30 से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, सदस्य श्री श्रवण मंगला, महाप्रबंधक, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, एक सेबी पंजीकृत आरटीए से sm@masserv.com: info@masserv.com या टेलीफोन नंबर: 011-26387281/82/83 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के श्री शशिकांत तिवारी, पार्टनर, (एफ11919) और उनकी अनुपस्थित में श्री रूपेश अग्रवाल, मैनेजिंग पार्टनर, (ए16302) को एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया की जांच करने के लिए को स्क्रुटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.kamdhenulimited.com पर अपलोड किए जाएंगे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को सूचित किया जाएगा, जहां कंपनी की प्रतिभृतियां सूचीबद्ध हैं। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 और सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 42 के अनुसार आगे नोटिस दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश तथा 29वीं एजीएम के उद्देश्य हेतु रिकार्ड तिथि बुधवार, 16 अगस्त, 2023 है। रिकार्ड तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज सदस्य वित्त वर्ष 2022-23 हेतु लाभांश के पात्र होंगे।

33.53

33.53

कृते कामधेनु लिमिटेड

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

20 अगस्त, 2023 को प्रातः 9:00 बजे (भा.मा.स.)

दिनांक : 31.07.2023 स्थान : गुरुग्राम

MARUTI SE SUZUKI

INR in million, except per share data

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

Registered Office: Plot No.1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi - 110070 CIN: L34103DL1981PLC011375; Website:www.marutisuzuki.com; E-mail: investor@maruti.co.in; Phone: + 91-11-46781000; Fax: +91-11-46150275/76

Extract of Standalone Unaudited / Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2023

Quanter ended Wear ended June 30, 2022 **Particulars** June 30, 2023 March 31, 2023 March31,2023 Unaudited Unaudited Unaudited Audited **Total Income from Operations** 264,998 323,269 320,480 11,175,229 Net Profit / (Loss) for the period 31,902 32,548 13,218 1001,591 (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period 31,902 32,548 13,218 1001,591 (before Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax 24,851 80,492 26,236 110,128 (after Exceptional and / or Extraordinary Items) Total Comprehensive Income /(Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive 81,085 25,637 23,883 112,393 Income /(Loss) (after tax) **Equity Share Capital** 1,510 1,510 11,55110 11,55100 Reserve as shown in the Audited Balance Sheet 602310 Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)

86.85

86.85

Extract of Consolidated Unaudited / Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2023

82.27

82.27

266.46

266.46

Sr. No	Particulars	Quanter ended			Yearended
		June 30, 2023 Unaudited	March 31, 2023 Unaudited	June 30, 2022 Unaudited	March 31, 2023 Audited
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	32,314	33,037	113,472	108,281
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items)	32,314	33,037	113,4472	1108;231
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	25,252	26,708	110,362	82,1110
5	Total Comprehensive Income /(Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	26,044	24,351	11:2:63 1	82,704
6	Equity Share Capital	11,55110	1,510	11,55100	11,55100
7	Reserve as shown in the Audited Balance Sheet	7			616,408
8	Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)				
	(a) Basic	83.59	88.41	3430	227/11.88/2
	(b) Diluted	83.59	88.41	3430	22711.882

Note: The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 38 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2023 are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on Company's website at www.marutisuzuki.com.

For and on behalf of Board of Directors

(Hisashi Takeuchi) Whanaging Director & CORO

Place - New Delhi Date - July 31, 2023